

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-24.11.2021

जनपद-सोनभद्र

स्वाट/एस.ओ.जी. व थाना राबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की 04 अदद मोटर साइकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

विगत कई माह से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद सोनभद्र में दो पहिया वाहन अज्ञात चोर द्वारा चोरी की जा रही है, इस पर प्रभावी रोकथाम लगाने तथा वाहन चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण व उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री विनोद कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकुमार त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में स्वाट/एस.ओ.जी. व थाना राबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर विशिष्ट निर्देश दिये गये। इस टीम द्वारा अथक लगन व परिश्रम से अपना आसूचना संजाल तैयार किया गया, जिसमें दिनांक 23.11.21 को टीम को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो पहिया वाहन चोरी करने वाला अपराधी चोरी की मोटर साइकिल के साथ चण्डी तिराहा राबर्ट्सगंज में खड़ा है, इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए चंडी तिराहे पर पहुंच कर 01 नफर अभियुक्त कुलदीप शर्मा पुत्र स्व० योगेश शर्मा निवासी ग्राम बभनौली थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल बरामद कर उसकी निशानदेही पर अभियुक्त के घर के पीछे पड़े छप्पर में खड़ी 03 अदद चोरी की मोटर साइकिल इस प्रकार कुल 04 अदद मोटर साइकिल बरामद कर विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बरामद मोटर साइकिलों में से 02 मोटर साइकिल थाना राबर्ट्सगंज के मु०अ०सं०-467/21 व 670/21 से तथा शेष 02 मोटर साइकिल जनपद वाराणसी के थाना सिगरा पर पंजीकृत मु०अ०सं०-510/2021 व थाना रामनगर के आनलाइन शिकायत संख्या 92119700006733 से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- कुलदीप शर्मा पुत्र स्व० योगेश शर्मा निवासी- बभनौली थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

बरामदगी-

1. सुपर स्प्लेण्डर रजि०नं०-UP64AB1604 (मु०अ०सं०467/21,थाना रा०गंज सोनभद्र)
2. बजाज पल्सर (मु०अ०सं०-510/21,धारा 379 भादवि थाना सिगरा वाराणसी)
3. बजाज पल्सर रजि०नं०-UP65BP5795 (थाना रामनगर वाराणसी आनलाइन शिकायत सं० 92119700006733)
4. TVS स्पोर्ट रजि०नं०-UP64W2168 (मु०अ०सं०-670/21,धारा-379 भादवि थाना रा० गंज सोनभद्र)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० अमित कुमार त्रिपाठी ,प्रभारी स्वाट टीम सोनभद्र।
2. उ०नि० जितेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी काशीराम आवास थाना रा०गंज सोनभद्र।
3. उ०नि० ज्ञानेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी सुकृत थाना रा०गंज सोनभद्र।
4. हे०का० अतुल सिंह , हे०का० चन्द्रभान यादव, हे०का० अमर सिंह,हे०का० जितेन्द्र यादव, हे०का० संदीप सिंह, का० हरिकेश यादव, का० रितेश सिंह पटेल, का० राघवेन्द्र सिंह, का० हसनैन अहमद थाना रा०गंज/स्वाट/एसओजी टीम सोनभद्र।